



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 28)

पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर 2014

सं0 22/नि0सि0(पू0)—01-08/2013/1579—श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज के विरुद्ध किशनगंज जिला अन्तर्गत एजेण्डा सं0-113/97 द्वारा पोड़लाबाड़ी एवं एजेण्डा सं0-115/10 से पुरन्दाहा स्थल पर बाढ़ 2012 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितता से संबंधित आरोपों की जाँच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1108 दिनांक 13.9.13 द्वारा निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण किया गया:—

1. पोड़लाबाड़ी स्थल:— परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में प्राक्कलन के अनुसार 6 एम0 एम0 डायामेटर के 20 अर्द्ध रिंग का प्रावधान था जिसके विरुद्ध 11" के स्पेसिंग पर 12 अर्द्ध रिंग जाँच में पाया जो प्रावधानित रिंग से काफी कम था। परक्यूपाईन मेम्बर में 1:1.5:3 अनुपात की ढलाई में सीमेंट एवं बालू के निर्धारित अनुपात 1:1.5 के स्थान पर 1:3.9 का उपयोग किया गया है। साथ ही ढलाई में Vibrator का उपयोग नहीं किया गया है। प्राक्कलन में Coarse Sand एवं पाकुड़ चीप्स के प्रावधान के विरुद्ध Local Sand एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। सभी परक्यूपाईन में झांकी भरा हुआ नहीं पाया गया है। विशेष जाँच दल के पाँचवे निरीक्षण का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।

2. पुरन्दाहा स्थल:— परक्यूपाईन लेईंग का कार्य दो Row में ही 300 मी0 में Deflectors सहित किया जाना था। परन्तु कार्य एक Row में अनुशंसित लम्बाई से भिन्न लम्बाई में कराया गया है। परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में 6 एम0 एम0 डायामेटर का 20 रिंग लगाया जाना था जिसके स्थान पर 8" Spacing पर 15 रिंग पाये गये। किसी भी परक्यूपाईन में झांकी नहीं पाया गया है। प्राक्कलन में Coarse Sand एवं पाकुड़ चीप्स के प्रावधान किया गया है, परन्तु कार्य में Local Sand एवं सिल्लीगुड़ी चीप्स का उपयोग किया गया है। परक्यूपाईन ढालने में 1:1.5:3 अनुपात में सीमेंट एवं बालू के निर्धारित अनुपात 1:1.5 के स्थान पर 1:2.8 का उपयोग किया गया है। कार्य में Vibrator का उपयोग नहीं किया गया है। प्रावधानित लम्बाई में परक्यूपाईन लेईंग का कार्य नहीं किया गया है। अतः स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप मिट्टी कार्य नहीं कराया गया है।

श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उड़नदस्ता अंचल का मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोपों के लिए आप दोषी पाये गये हैं:—

1. पोड़लावाड़ी एवं पुरन्दाहा कार्य स्थलों पर व्यवहृत Porcupine members में प्रावधान से कम मात्रा में लौह सामग्री का व्यवहार किया जाना।

2. पुरन्दाहा कार्य स्थल पर एस0 आर0 सी0 की अनुशंसा के अनुरूप कार्य नहीं कराया जाना एवं

3. कार्य स्थल पर उपलब्ध Porcupine में प्रावधान के अनुरूप झांकी उपलब्ध नहीं कराया जाना।

4. त्रुटिपूर्ण कार्य करने के लिए संवेदक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपर्युक्त आरोपों के लिए आपको निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:-

“असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक”।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज को “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक” का दण्ड दिया जाता है।

उक्त दण्ड श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमण्डल, किशनगंज को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 28-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>